



## इंटीग्रेटी पैकट (आई पी)

इंटीग्रेटी पैकट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टी आई), अन्तरराष्ट्रीय एन जी ओ द्वारा विकसित एक ऐसा साधन है जिसका लक्ष्य है सार्वजनिक संविदा में भ्रष्टाचार को रोकना। इंटीग्रेटी पैकट सार्वजनिक संविदा के लिए प्रिंसिपल एवं बोलीकर्ता (bidder) के बीच एक समझौता है, जो दोनों पक्षों को नैतिक कार्य-व्यवहार के लिए बाध्य करता है। इसमें अधिकार एवं दायित्व दोनों होते हैं जिससे दोनों पक्ष अपने कार्य-व्यवहार में पारदर्शी होंगे, कोई भी पक्ष न रिश्वत देगा, न रिश्वत का प्रस्ताव देगा, न रिश्वत की माँग करेगा, न रिश्वत स्वीकार करेगा और न ही ठेका प्राप्त करने के लिए बोलीकर्ता अपने प्रतिस्पर्धियों से साँठ-गाँठ करेगा, इत्यादि।

इस इंटीग्रेटी पैकट को अपनाने में सेल अग्रणी कम्पनियों में से एक था और इस समय यह पैकट 20 करोड़ रुपये एवं इससे ऊपर के मूल्यवाले सभी निविदाएं, संविदाएं, लम्बी अवधि वाले समझौताओं और सेल-सीएमओ के Departmental warehouses के सभी हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट का एक अभिन्न अंग है।

इंटीग्रेटी पैकट के मोनिटरिंग के लिए, सेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से निम्नलिखित प्रमुख व्यक्तित्व को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया है:

श्री मधुसूदन प्रसाद - आई ए एस (अवकाश प्राप्त) एवं पूर्व सचिव, शहरी विकास मंत्रालय  
ईमेल – [mprasad23@gmail.com](mailto:mprasad23@gmail.com)

श्री अजीत मोहन शरण - आई ए एस (अवकाश प्राप्त) एवं पूर्व सचिव, आयूष मंत्रालय  
ईमेल – [ams057@gmail.com](mailto:ams057@gmail.com)

श्री किशोर कुमार सांसी - भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विजया बैंक  
ईमेल – [kishoresansi1@gmail.com](mailto:kishoresansi1@gmail.com)

इन आई ई एम का कार्य है कि वे स्वतंत्र रूप से एवं निष्पक्ष दृष्टि से यह समीक्षा करें कि इस समझौते के अन्तर्गत दिए गए दायित्वों का पार्टियाँ कहाँ तक और कितना पालन करती हैं।

जिन निविदाओं के मामले में इंटीग्रेटी पैकट शामिल होता है, वहाँ सेल बोलीकर्ताओं को पहले से ही विधिवत हस्ताक्षरित आई पी भेज देता है। बोलीकर्ताओं को उस पैकट पर हस्ताक्षर करके उसे अपनी बोलियों के साथ प्रस्तुत करना होता है। विधिवत हस्ताक्षरित आई पी के बिना प्राप्त बोलियाँ अस्वीकृत कर दी जाती हैं। इंटीग्रेटी पैकट के तहत आने वाली सभी निविदाओं में सभी आई ई एम के नाम एवं ईमेल का उल्लेख किया जाता है।

बोलीकर्ताओं को, यदि कोई शिकायत हो, तो वे निविदा से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/प्रचालन अधिकारी, सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा सेल के आई ई एम से सम्पर्क कर सकते हैं। आई ई एम से इंटीग्रेटी पैकट सचिवालय ([sail.ip.secretariat@sail.in](mailto:sail.ip.secretariat@sail.in)), 16वाँ तल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 के द्वारा भी सम्पर्क किया जा सकता है। (सेल का आई पी [www.sailtenders.co.in](http://www.sailtenders.co.in) / Standard Documents) में उपलब्ध है।